



ब्रिक-ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान
और प्रौद्योगिकी संस्थान



BRIC-Translational Health Science and Technology Institute

(An Institute of the Biotechnology Research and Innovation Council, Govt. of India)

NCR Biotech Science Cluster, 3rd Milestone, Faridabad – Gurugram Expressway,
P.O. Box No. 04, Faridabad – 121001

भर्ती नोटिस सं. : टीएचएस/आरएन/15/2025

दिनांक: 21st जुलाई 2025

RECRUITMENT NOTICE NO.: THS/RN/15/2025

Dated: 21st July 2025

भर्ती अधिसूचना/ RECRUITMENT NOTIFICATION

1. BRIC-Translational Health Science and Technology Institute (THSTI), जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का एक संस्थान है। भारत का यह संस्थान फरीदाबाद में स्थित इंटरडिसिप्लिनरी एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर का एक अभिन्न अंग है, जिसमें अभिनव ट्रांसलेशनल अनुसंधान करने और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए अवधारणाओं को उत्पादों में ट्रांस्लेट करने के लिए विषयों और व्यवसायों में अनुसंधान सहयोग विकसित करने का मिशन है।

BRIC-Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) is an Institute of the Biotechnology Research and Innovation Council, Department of Biotechnology, Ministry of Science & Technology, Govt. of India. The institute is an integral part of the interdisciplinary NCR Biotech Science Cluster located at Faridabad, with the mission to conduct innovative translational research and to develop research collaborations across disciplines and professions to translate concepts into products to improve human health.

2. ब्रिक-टीएचएसटीआई ने अनुसंधान और प्रयोगशाला कर्मचारियों की प्रशिक्षित टीमों द्वारा समर्थित उद्योग के साथ कई अंतर-संस्थागत सहयोग और कनेक्टिविटी का निर्माण किया है। टीएचएसटीआई ने विभिन्न केंद्रों की स्थापना की है जैसे (क) मातृ और बाल स्वास्थ्य केंद्र, (ख) वायरस अनुसंधान, चिकित्सा और टीका केंद्र (ग) तपेदिक अनुसंधान केंद्र (घ) माइक्रोबियल अनुसंधान केंद्र, (ङ) इम्युनोबायोलॉजी और इम्युनोथेरेपी केंद्र (च) ड्रग डिस्कवरी केंद्र (छ) नैदानिक विकास सेवा एजेंसी (ज) कम्प्यूटेशनल और गणितीय जीव विज्ञान केंद्र (झ) बायो-डिजाइन और निदान केंद्र। इन केंद्रों को कई मुख्य सुविधाओं द्वारा मजबूत किया गया है जैसे कि बायोएसे लेबोरेटरी, बायोरेपोजिटरी, बायोसेफ्टी लेवल-3 लैब, डेटा मैनेजमेंट सेंटर, इम्युनोलॉजी कोर लेबोरेटरी, मल्टी-ओमिक्स सुविधा, प्रयोगात्मक पशु सुविधा, वैक्सीन डिजाइन और विकास सुविधा, बायोडिजाइन में नवाचार का स्कूल आदि। जो THSTI के अनुसंधान कार्यक्रमों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बायोटेक साइंस क्लस्टर और अन्य शैक्षणिक और औद्योगिक भागीदारों के लिए विशाल संसाधनों के रूप में काम करते हैं। ब्रिक-टीएचएसटीआई कई महत्वाकांक्षी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से वैज्ञानिक लीडर की अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करता है जो बहु-विषयक शिक्षाविदों-उद्योग साझेदारी के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।

BRIC-THSTI has built several inter-institutional collaborations and connectivity with industry supported by well-trained teams of research and laboratory staff. THSTI has established various centres namely (a) Centre for Maternal and Child Health, (b) Centre for Virus Research, Therapeutics and Vaccines (c) Centre for Tuberculosis Research (d) Centre for Microbial Research, (e) Centre for Immunobiology and Immunotherapy (f) Centre for Drug Discovery (g) Clinical Development Services Agency (h) Computational and Mathematical Biology Centre (i)

Centre for Bio-design and Diagnostics. These centres are strengthened by many core facilities viz. Bioassay Laboratory, Biorepository, Biosafety Level-3 Lab, Data Management Centre, Immunology Core laboratory, Multi-Omics facility, Experimental Animal Facility, Vaccine design and Development facility, School of Innovation in Bio design etc. that serve as huge resources for the research programmes of THSTI and also the National Capital Region Biotech Science Cluster and other academic and industrial partners. BRIC-THSTI trains the next generation of scientific leaders through many ambitious and globally competitive academic courses which promotes research and innovation through multi-disciplinary academia-industry partnerships.

3. **बायोडिज़ाइन में डायग्नोस्टिक इनोवेशन स्कूल (SiB)** को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट (THSTI) में स्थापित किया गया है। यह फ़ेलोशिप कार्यक्रम THSTI में देश के प्रमुख संस्थानों जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- मद्रास (IITM), क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज- वेल्लोर, PGI-चंडीगढ़ और वेंचर सेंटर- पुणे के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सस्ती और सुलभ चिकित्सा निदान तकनीकों के विकास हेतु मेडटेक नवाचारों को बढ़ावा देना है।

School of diagnostic innovation in Biodesign (SiB) has been created at Translational Health Science and Technology Institute (THSTI) by Department of Biotechnology (DBT), Ministry of Science and Technology, Government of India. This fellowship program is being implemented at THSTI in collaboration with leading institutions in the country viz. Indian Institute of Technology-Madras (IITM), Christian Medical College, Vellore, PGI-Chandigarh and Venture Centre- Pune. The focus of this program is on medtech innovations for the development of affordable and accessible medical diagnostic technologies.

4. **'SiB'** DBT का एक बेहद सफल प्रमुख कार्यक्रम रहा है, जिसके तहत अब तक 35 से अधिक मेडटेक उत्पादों और 20 स्टार्टअप्स का विकास किया जा चुका है। THSTI में **"SiB फ़ेलोज़"** की नियुक्ति हेतु यह कॉल खुली है, जो चिकित्सा निदान में नवाचार और उत्पाद विकास पर कार्य करेंगे। इस फ़ेलोशिप का लक्ष्य बायोडिज़ाइन क्षेत्र में सामाजिक और वैज्ञानिक नवप्रवर्तकों की एक नई पीढ़ी को तैयार करना और उन्हें सफल उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित करना है।

'SiB' has been a very successful flagship program of DBT which has led to development of more than 35 medtech products and 20 startups. This call is open for the position of **"SiB Fellows"** at THSTI to work for innovation and product development in medical diagnostics. The goal of the Fellowship is to foster a pool of social and science innovators in the Bio-design arena and to train them to become successful entrepreneurs.

5. फ़ेलोज़ को निदान प्रणालियों के विकास, सत्यापन, व्यवसायीकरण और उपयोग से जुड़े सभी पहलुओं का अनुभव प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित इनोवेटर्स और उद्यमियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निदान के क्षेत्र में विशेष कौशल लाकर भारत को **"आत्मनिर्भर भारत"** के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करेंगे।

The fellows will be exposed to all aspects of the development, validation, commercialization and use of diagnostics. The innovators and entrepreneurs trained via this program are expected to provide niche skills in the domain of diagnostics and enable India to attain its goal of **"Aatma Nirbhar Bharat"**.

6. यह कार्यक्रम ऐसे युवाओं की तलाश में है, जिनमें तकनीकी नवाचार के प्रति जुनून हो और जो क्लिनिकल इमर्शन, उत्पाद नवाचार और उद्यमिता के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक योग्यताएँ रखते हों।

The program is looking for millennials with passion for technology innovation and requisite skills for receiving training in clinical immersion, product innovation and entrepreneurship.

7. यह भर्ती निम्नलिखित परियोजना के तहत ब्रिक-टीएचएसटीआई की रिक्तियों को भरने के लिए है:
This recruitment is to fill up the vacancies of BRIC-THSTI under the following project:

पद के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता और अनुभव /Educational Qualification and Experience required for the post:

क्रम संख्या/ S.No.	पद का नाम/Name of the Post/ पदों की संख्या/ No. of posts/ मासिक समेकित परिलब्धियां/ Monthly consolidated emoluments/ आयु सीमा/ Age Limit	आवश्यक और वांछनीय योग्यता और अनुभव/ Essential & Desirable qualifications & Experience
<p>प्रोजेक्ट/Project: Inter-Institutional School of Diagnostic Innovation in Bio-design (SIB): A fellowship program for building next generation pool of diagnostic innovators and entrepreneur</p> <p>पीआई/ PI : Prof. G. Karthikeyan</p>		
1.	<p>एसआईबी (बायोडिज़ाइन) फ़ेलो/ SIB (Biodesign) Fellow</p> <p>छह पद/ Six posts</p> <p>Rs. 60,000/-</p> <p>35 वर्ष/ 35 years</p> <p>नियुक्ति स्थान/Place of posting— टीएचएसटीआई/ THSTI</p>	<p>Essential:</p> <p>Science: M.Sc./Ph.D in any branch of Life Sciences/ Chemistry or related field from a recognized university. OR Engineering: B.E./ B.Tech/ M.E./ M.Tech from a recognized university OR Medicine: MBBS/ BDS/ BVSc from a recognized university. OR Design: Masters in Product or Industrial Design from a recognized university. OR Business: MBA with a background in Life Science/ Engineering.</p> <p>Desirable: Candidates with involvement in innovation/design or social entrepreneurship or social empowerment using science or technology are particularly encouraged to apply. The ideal candidates will demonstrate a strong interest in innovation, creativity and entrepreneurial mindset coupled with a genuine desire to aspire and make a positive impact.</p>
<p>उपरोक्त पदों के लिए/ For posts mentioned above-</p> <p>➤ ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 10 अगस्त 2025 / Last date for receipt of online application: 10th August 2025</p>		

चयन मापदंड: प्राप्त आवेदनों की छंटनी उपरोक्त उल्लिखित पात्रता मानदंडों और "स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़" (जो आवेदन के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा) की सामग्री के आधार पर की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को THSTI, फरीदाबाद में व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों के नाम हमारी वेबसाइट पर घोषित किए

जाएंगे। साक्षात्कार की तिथियाँ बाद में सूचित की जाएंगी। अंतिम चयन साक्षात्कार के दौरान आवेदक के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों की सूची THSTI वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

Selection Criteria: The applications received will be screened based on the eligibility criteria mentioned above and content of the "Statement of purpose" (to be uploaded online along with application). The shortlisted candidates will be called for an interview in person at THSTI, Faridabad. The names of shortlisted candidates will be announced on our website. The dates for the interview will be announced later. Final selection will be made based on the applicant's performance during the interview and the list of selected candidates will be published on the THSTI website.

सामान्य नियम व शर्तें/ GENERAL TERMS & CONDITIONS:

- a) These are the short-term positions, and extension will be granted subject to satisfactory performance of the incumbents and tenure of the project for which they are selected. Those appointed to these positions will not have any claim for regularization of their employment.
- b) All educational, professional and technical qualifications should be from a recognized Board/University.
- c) The experience requirement specified above shall be the experience acquired after obtaining the minimum educational qualifications specified for the post. The candidates are required to satisfy themselves, before applying /appearing for the selection process, that they possess the minimum eligibility criteria as laid down in the recruitment advertisement. No query will be entertained with regard to the eligibility criteria.
- d) Closing date of online application will be the **CRUCIAL DATE** for determining eligibility with regard to age, essential qualification, experience etc.
- e) The age limit, qualification, experience and other requirements may be relaxed at the discretion of the competent authority, in case of candidates who are otherwise suitable.
- f) Age and other relaxations for direct recruits and departmental candidates: 1. By five years for candidates belonging to SC/ST communities. 2. By three years for candidates belonging to OBC communities. 3. For Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) falling under the following categories : (i) UR - ten years, ii) OBC - 13 years (iii) SC/ST - 15 4. Age is relaxable for Central Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government, from time-to-time. 5. Institute employees will get the age relaxation to the extent of the service rendered by them as on closing date of advertisement. 6. For Ex-servicemen upto the extent of service rendered in defence forces (Army, Navy & Air force) plus 3 years provided they have put in a minimum of 6 months attested service.
- g) All results/notifications will only be published on our website. Therefore, the candidates should essentially visit THSTI website, regularly.
- h) All communications will only be made through email.
- i) In case a large number of applications are received, screening will be done to limit the number of candidates to those possessing higher/relevant qualification and experience.
- j) The no. of vacancy indicated above may change subjected to the actual requirement at the time of Written test/skill test/interview.
- k) With regard to any provisions not covered in this notification, the bye laws of THSTI / Govt. of India rules/ guidelines shall prevail.
- l) Canvassing wrong information in any form will be a disqualification.

उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पदों के लिए आवेदन कैसे करें/ HOW TO APPLY FOR POSTS MENTIONED IN ABOVE TABLE:

1. **Documents to be kept handy before filling up the online application:** (all the documents except (i) should be in pdf format):
 - i) A soft copy of your passport size photo and signature. (jpeg/jpg/png format)
 - ii) A comprehensive CV containing details of qualification, positions held, professional experience / distinctions etc.
 - iii) Matriculation certificate (equivalent to 10th Standard) / Mark sheet
 - iv) Intermediate certificate (equivalent to 12th Standard) / Mark sheet
 - v) Graduation/Diploma degree certificate / Mark sheet

- vi) Post-Graduation degree certificate & Mark sheet (if applicable)
- vii) PhD degree/certificate (if applicable)
- viii) Relevant experience certificates (if applicable)
- ix) Caste / Disability certificate in the format prescribed by the Govt. of India, if applicable

2. Procedure for filling up online application:

- i) The eligible and interested candidates may apply online at the Institute's website. Applications through any other mode will not be accepted.
- ii) The following will be the step wise procedure-
 - A) Step 1 : Details of applicant
 - B) Step 2 : Uploading of documents
 - C) Step 3 : Payment of application fee
 - The payment can be made by using Debit Card / Credit Card / Internet Banking/ UPI.
 - Once payment is made, no correction / modification is possible
 - Candidates are requested to keep a copy of the provisional receipt for future reference.
 - Fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
 - Details of fees to be paid are as shown below:

S. No	सीधी भर्ती पर आवेदन करना/ Applying on direct recruitment	आवेदन शुल्क राशि/ Application fee amount
1.	Unreserved, OBC & EWS candidates	Rs. 590/-
2.	SC/ST/Women/PwBD	Rs. 118/-

- D) Step 4 : Submission of application form
- iii) On successful submission of application, an auto-generated email containing the reference number will be sent to the email address provided. Please keep a note of the reference number for future correspondence.
- iv) Candidates are required to keep a printout of the online application form by using the print button on the dashboard for future reference.
- v) Candidates must ensure that he / she fulfils all the eligibility criteria as stipulated in the advertisement. If it is found that he / she does not fulfil the stipulated criteria during the recruitment process, the candidature of the candidate will be cancelled. If the same is noticed after the appointment, the candidate will be terminated following due process.
- vi) Incomplete applications shall be summarily rejected and no correspondence in this regard shall be entertained.
- vii) In case of difficulty in filling up the online form, please send e-mail to personnel@thsti.res.in along with the screenshot of the error displayed (if any).

"Government strives to have a work force which reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply"

(M.V. Santo)
Head-Administration

=====End of the document=====